

(c) Effect of Price Ceiling

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(क) उत्पादन संभावना वक्र

(ख) उत्पादक अधिशेष

(ग) मूल्य सीमा का प्रभाव

7. Explain the process of determination of consumer equilibrium by using utility theory in case of (i) single good, (ii) more than a single good. What are the shortcomings of this theory? (10,10)

(i) एकल वस्तु, (ii) एक से अधिक वस्तुओं के मामले में उपयोगिता सिद्धांत का उपयोग करके उपभोक्ता संतुलन के निर्धारण की प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। इस सिद्धांत की कमियाँ क्या हैं?

8. A competitive firm can earn only normal profit in the long run. Explain by using suitable diagram.

एक प्रतिस्पर्धी फर्म लंबे समय में केवल सामान्य लाभ कमा सकती है। उपयुक्त आरेख का उपयोग करके समझाएँ।

[This question paper contains 4 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper: 7319

I

Unique Paper Code : 62275504

Name of the Paper : Principles of Microeconomics

Name of the Course : BA (Prog) Economics: GE

Semester : V

Duration : 3 Hours

Maximum Marks : 75/100

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Each question carries equal marks.
3. Answer any five.
4. Answers may be written either in English or Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

छात्रों के लिए निर्देश

1. इस प्रश्न-पत्र के मिलते ही ऊपर दिए गए निर्धारित स्थान पर अपना अनुक्रमांक लिखिए।
2. प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं।

3. किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दें।
4. इस प्रश्न-पत्र का उत्तर अंग्रेजी या हिंदी किसी एक भाषा में दीजिए, लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

1. Differentiate between price elasticity of demand and income elasticity of demand. Explain the factors which affect the value of the price elasticity of demand. (10,10)

मांग की कीमत लोच और मांग की आय लोच के बीच अंतर कीजिए। मांग की कीमत लोच के मूल्य को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए।

2. Explain the concept of returns to scale. With the help of iso-quants explain constant, increasing and decreasing returns to scale respectively. (5,15)

पैमाने पर प्रतिफल की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। आइसो-क्वांट की सहायता से क्रमशः स्थिर, बढ़ते और घटते पैमाने पर प्रतिफल की व्याख्या कीजिए।

3. How does the shape of the long run supply curve of the competitive firm change with the changes in cost conditions? (20)

प्रतिस्पर्धी फर्म के दीर्घकालीन आपूर्ति वक्र का आकार लागत स्थितियों में परिवर्तन के साथ कैसे बदलता है?

4. Show with the help of diagram the relationship between various short period cost curves. Why is the short run average cost curve U-shaped? (10,10)

आरेख की सहायता से विभिन्न अल्पकालीन लागत वक्रों के बीच संबंध दर्शाइये। अल्पकालीन औसत लागत वक्र U-आकार का क्यों होता है?

5. "Price effect is a summation of income effect and substitution effect." Explain diagrammatically in case of a,

(i) Normal good and,

(ii) Inferior good. (10,10)

"मूल्य प्रभाव आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव का योग है।"

(i) सामान्य वस्तु और

(ii) निम्नस्तरीय वस्तु के मामले में आरेखीय रूप से व्याख्या कीजिए।

6. Write short notes on any two of the following :

(a) Production Possibility Curve

(b) Producer's Surplus